



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 पौष 1946 (श०)

(सं० पटना 1235) पटना, शुक्रवार, 27 दिसम्बर 2024

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

अधिसूचना

13 दिसम्बर 2024

सं० नि.प्रा./नि. 1-22/2024-2244—बिहार सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2023 (बिहार अधिनियम-7, 2013) द्वारा यथासंशोधित बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 के अधीन राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी स्वावलंबी सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति/बोर्ड/निदेशक मंडल के निर्वाचन संचालन का दायित्व बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को सौंपा गया है।

2. उक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा 5 (2) एवं बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार नियमावली, 2008 के नियम-6 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कृषक सेवा सहकारी समिति लि०, दानापुर, पटना के निर्वाचन के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर को निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. अनुमंडल पदाधिकारी—सह—निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०), पटना सदर उक्त समिति के निर्वाचन हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्ता/वरीय उप समाहर्ता को उप निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकते हैं।

4. अनुमंडल पदाधिकारी—सह—निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०), पटना सदर जिला पदाधिकारी—सह—जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०), पटना के निर्देशन एवं नियंत्रण में उक्त समिति का चुनाव संबंधी कार्य करेंगे।

5. उक्त सभी पदनामित पदाधिकारी बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 के अंतर्गत बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के पर्यवेक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण में निर्वाचन का संचालन करेंगे।

आदेश से,  
पुरुषोत्तम पासवान,  
सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1235-571+50-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>